

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./चार/तीन/स.क.वि./2025/६२५

भिलाई दिनांक १२/७/2025

//अधिसूचना//

(वित्तीय वर्ष 2025-26 में संपत्तिकर के स्व-निर्धारण हेतु कर योग्य संपत्ति मूल्य की दरें एवं जोनों का वर्गीकरण)

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अधीन छत्तीसगढ़ नगरपालिका(भवन/भूमि के कर योग्य संपत्ति मूल्य का निर्धारण) नियम, 2021 के अंतर्गत नियम 8 के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में संपत्तिकर के स्वनिर्धारण हेतु संकल्प का अंगीकरण महापौर परिषद नगर पालिक निगम, भिलाई द्वारा प्रस्ताव क्र. 13 दिनांक 08.09.2025 में पारित किया गया, जिसकी अधिसूचना निगम क्षेत्र में स्थित भवन/भूमि के स्वामियों के जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है, विवरण निम्नानुसार है :-

1. जोनवार भूमियों के लिए वार्षिक भाड़ा मूल्य/कर योग्य संपत्ति मूल्य की दरों का निर्धारण:-

जोनवार भूमियों के लिए छत्तीसगढ़ नगरपालिका(भवन/भूमि के कर योग्य संपत्ति मूल्य का निर्धारण) नियम, 2021 के नियम 6 के अनुसार वार्षिक भाड़ा मूल्य की दरों का निर्धारण प्रति वर्गमीटर में निम्नानुसार है :-

जोन क्रमांक	आवासीय दरें	व्यवसायिक दरें
जोन-1	रु. 108.46 प्रति वर्गमीटर	रु. 135.58 प्रति वर्गमीटर
जोन-2	रु. 54.23 प्रति वर्गमीटर	रु. 67.79 प्रति वर्गमीटर
जोन-3	रु. 27.12 प्रति वर्गमीटर	रु. 40.67 प्रति वर्गमीटर
जोन-4 (औद्यो.)	-	रु. 33.79 प्रति वर्गमीटर

जोनवार भूमियों के लिए छत्तीसगढ़ नगरपालिका(भवन/भूमि के कर योग्य संपत्ति मूल्य का निर्धारण) नियम, 2021 के नियम 7(1) के अनुसार कर योग्य संपत्ति मूल्य की दरों का निर्धारण प्रति वर्गमीटर में निम्नानुसार है :-

जोन क्रमांक	आवासीय दरें	व्यवसायिक दरें
जोन-1	रु. 108.46 प्रति वर्गमीटर	रु. 135.58 प्रति वर्गमीटर
जोन-2	रु. 54.23 प्रति वर्गमीटर	रु. 67.79 प्रति वर्गमीटर
जोन-3	रु. 27.12 प्रति वर्गमीटर	रु. 40.67 प्रति वर्गमीटर
जोन-4 (औद्यो.)	-	रु. 33.79 प्रति वर्गमीटर

2. सम्पत्तिकर निर्धारण के लिए जोन का वर्गीकरण :- वर्तमान में प्रचलित संपत्तिकर के लिए आवासीय, व्यवसायिक एवं औद्योगिक के अनुसार कुल 4 (चार) जोन में निर्धारित हैं। तदनुसार जोन का वर्गीकरण निम्नानुसार है :-

जोन-1 (आवासीय)

वार्ड-1 में स्थित अनुष्ठा रेसीडेंसी, बैंक कालोनी जुनवानी, वार्ड-01 जुनवानी (खम्हरिया), गांधी नगर जुनवानी, चौहान ग्रीन वेली, रायल ग्रीन तथा अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र, वार्ड-02 समृतिनगर (पूर्व/पश्चिम), चौहान टाउन, सूर्यविहार(पश्चिम क्षेत्र), पुष्टकनगर, आनंदनगर, श्रिवेणीनगर, एवं उसके अनुरूप सभी प्रकार की कालोनीयाँ, वार्ड-03- सूर्य विहार(पूर्व भाग), चौहान द्वीप हाउस, वंदेमातरम, सूर्या अपार्टमेंट, माझल टाउन, वार्ड-04- मोतीलाल नेहरूनगर (पूर्व/पश्चिम), वार्ड-5 मोतीलाल नेहरूनगर पूर्व, माझल टाउन, दीक्षित कालोनी, गांधीनगर, वार्ड-6-प्रियदर्शनी परिसर (पूर्व एवं पश्चिम), नेहरूनगर पूर्व एवं पश्चिम, वार्ड-7- राधिकानगर, शिवालीनगर, भैत्रीविहार

अयप्पानगर, फरीदनगर का पश्चिम भाग, उल्लास नगर, दुर्गा नगर, कुबेर इनकलेव, आनंदपूरम फेस-2, वार्ड-11-फरीदनगर पूर्व भाग, गांधी कालोनी, वार्ड-12-कोहका, शिक्षकनगर, हाउसिंग बोर्ड, आनंदपूरम फेस-1, सूर्या रेसीडेन्सी कोहका, सनातन नगर, विवेकानंद नगर, वार्ड-13 कृष्णा ग्रान्ड सिटी, साकेतनगर, वार्ड-14-शांतिनगर, चन्द्रनगर, विवेकानंद नगर, राधिका अपार्टमेंट, वैशालीनगर का भाग, वार्ड-15-शांतिनगर का भाग, अम्बेडकर नगर, वार्ड-18 कान्द्रेक्टर कालोनी, वार्ड-19-गुरुनानक नगर, वार्ड-20-वैशालीनगर, सुन्दर नगर, बाबादीप सिंह नगर, वार्ड-21-कैलाशनगर, दलीप परिसर, श्रीराम हाईट्स, प्रियदर्शी सोसायटी कुरुद, स्टीलनगर, वार्ड-22-प्रगतिनगर, ए.सी.सी. कर्मचारी कालोनी, सुन्दर विहार हाउसिंग बोर्ड कालोनी, वार्ड-23-हाउसिंग बोर्ड कालोनी का भाग, वार्ड-24-हाउसिंग बोर्ड, वार्ड-25-जवाहर नगर, बसंत विहार, हाउसिंग बोर्ड कालोनी का भाग अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र, रामनगर मुख्य मार्ग आजाद चौक से हाउसिंग बोर्ड कालोनी का भाग अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र, रामनगर मुख्य मार्ग आजाद चौक से गौरव पथ। वार्ड-51 दीनदयाल पूरम, शिवाजीनगर, वार्ड-47-न्यू खुर्सीपार एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र, बी.एस.पी. क्षेत्र के सम्पूर्ण आवासीय सेक्टर क्षेत्र(मरोदा सेक्टर, रिसाली सेक्टर, रुआबांधा सेक्टर को छोड़कर) एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र। एवं क्षेत्र के सभी प्रमुख मार्गों में स्थित आवासीय भवन एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र।

जोन-1 (व्यवसायिक)

वार्ड-02-स्मृतिनगर मार्केट जुनवानी 100 फीट रोड चौड़ाई समुख मार्ग के व्यवसायिक भवन, जुनवानी चौक से एम.आर.-9 जुनवानी मार्ग नाला मार्ग 150 फीट रोड तक के व्यवसायिक भवन एवं माडल टाऊन नहर से सूर्यविहार चौक 100 फीट रोड तक व्यवसायिक भवन, 60 फीट रोड भवन एवं अग्रसेन चौक होते हुए के.पी.एस. तक, के.पी.एस. से सी.एस.ई.बी. आफिस नेहरू से 80 फीट रोड अग्रसेन चौक होते हुए के.पी.एस. से 60 फीट रोड माडल टाऊन (शिवाजी चौक) तक नगर वाली रोड पर स्थित भूखण्ड एवं के.पी.एस. से सूर्या अपार्टमेंट तक स्थित व्यवसायिक भवन, नेहरू परिसर एवं एवं माडल टाऊन शिवाजी चौक से सूर्या अपार्टमेंट तक स्थित व्यवसायिक भवन, नेहरू परिसर एवं सम्पूर्ण व्यवसायिक भवन, प्रियदर्शनी परिसर (पश्चिम), दक्षिण गंगोत्री, राधिका नगर राधाकृष्णा मार्केट सम्पूर्ण व्यवसायिक भवन, प्रियदर्शनी परिसर (पश्चिम), दक्षिण गंगोत्री, राधिका नगर राधाकृष्णा मार्केट मुख्य रोड, उत्तर गंगोत्री, आकाश गंगा, शिवनाथ काम्लेक्स, गणेश मार्केट, प्रियदर्शनी परिसर (पूर्व) में राजेन्द्र चौक तक (पूर्व/पश्चिम) जी.ई.रोड के उत्तर/दक्षिण, निर्मित रोड के आमने सामने स्थित व्यवसायिक भवन (सिरसा रोड), आदर्श मार्केट, महात्मागांधी मार्केट, विजय बसंत, लिंक रोड, मार्केट, जवाहर मार्केट, सर्कुलर मार्केट, ए.बी.सी. मार्केट, रविशंकर शुक्ला मार्केट, जी.ई.रोड से नन्दनी रोड राजेन्द्र चौक तक (पूर्व/पश्चिम) जी.ई.रोड से एम.आर.-9 रोड तक आमने-सामने) 100 फीट छावनी ए.सी.सी. रोड तक, 18 नं. रोड (जी.ई.रोड से एम.आर.-9 रोड तक आमने-सामने) स्थित व्यवसायिक भवन, एप्रोच रोड 50 फीट एवं 60 फीट रोड (जी.ई.रोड से गांधी चौक होते हुए स्थित व्यवसायिक भवन), टी-मार्केट नन्दनी रोड से 100 फीट रोड ए.सी.सी. चौक, जी.ई.रोड से राधिकानगर 60 फीट रोड, भारत माता मार्केट, बी.एस.पी. के समस्त सेक्टर (मरोदा सेक्टर, रिसाली सेक्टर, रुआबांधा सेक्टर को छोड़कर), हुड़को सेक्टर-मार्केट, रविशंकर शुक्ल मार्केट दीनदयाल मार्केट, खुर्सीपार रोड के आमने-सामने स्थित व्यवसायिक भवन, कालीबाड़ी से नन्दनी गुरुनानक नगर गौरव पथ 80 फीट एवं 100 फीट रोड से छावनी चौक तक स्थित व्यवसायिक रोड, गुरुनानक नगर गौरव पथ 80 फीट रोड से कैलाशनगर तक एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र। भवन, हाँ बोर्ड गौरव पथ 80 फीट रोड से जलेबी चौक केम्प 1 से पानी टंकी हनुमान मंदिर तक रोड के किनारे स्थित व्यवसायिक भवन एवं क्षेत्र के सभी प्रमुख मार्गों में स्थित व्यवसायिक भवन। गोल मार्केट, गुरुनानक मार्केट, श्रीराम मार्केट, न्यू-खुर्सीपार मार्केट, एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र, विश्वकर्मा मार्केट, निगम क्षेत्र में स्थित समस्त सिनेमाघर(टाकीज), पांच रास्ता रोड सुपेला।

जोन-2 (आवासीय)

वार्ड-5— कोसा नगर स्थित ई.डब्ल्यू.एस. भवन, गांधी नगर जुनवानी, वार्ड-12-आर्यनगर, वार्ड-14-कृपाल नगर कोहका, वार्ड-69-हुडको का भाग, वार्ड-70- हुडको, वार्ड-27 शास्त्री नगर केम्प-1 स्थित आवासीय भवन एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र(मुख्य रोड छोड़कर)।

जोन-2 (व्यवसायिक)

श्रमिक बस्तियों के मध्य स्थित व्यवसायिक भवन एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र।

जोन-3 (आवासीय)

वार्ड-1— खम्हरिया बस्ती, जुनवानी पुरानी बस्ती, वार्ड-3— इंदिरानगर माडलटाउन श्रमिक बस्ती, वार्ड-5— कोसानगर, वार्ड-8-कृष्णानगर, बलराम चौक, गणेश चौक, लोहारपारा, न्यू कृष्णानगर, वार्ड-6-संजयनगर, कुम्हारपारा, वार्ड-9-गौतमनगर, राजीव नगर, वार्ड-10-भीमनगर, देवांगनपारा, लक्ष्मीनगर, आर्दशपारा, दुर्गापारा, उडियापारा, वार्ड-11-मुरुम खदान फरीदनगर, वार्ड-13— कोहका पुरानी बस्ती, झोपड़पारा, वार्ड-15-अम्बेडकर नगर बस्ती(अन्दर भाग), वार्ड-16-शंकरनगर, इंदिरा नगर, वार्ड-17-चिंगरीपारा, सुपेला बस्ती, पांच रास्ता, वार्ड-18-बाराद्वारी कालोनी, बजरंग चौक सुपेला, वार्ड-19-राजीवनगर, रामनगर पश्चिम भाग—"अ", रामनगर पश्चिम भाग—"ब", वार्ड-21 भाठापारा कुरुद, वार्ड-22-कुरुद हरिजन पारा, गोड़पारा, पुरानी बस्ती, वार्ड-23-घासीदासनगर, विवेकानन्दकालोनी, वार्ड-26-रामनगर(अन्दर भाग), वार्ड-27-शास्त्रीनगर केम्प-1 स्थित श्रमिक बस्ती कालोनी, वार्ड-28-प्रेमनगर, दुर्गा चौक केम्प-1, वार्ड-29— वृन्दानगर, वार्ड-30-प्रगतिनगर केम्प-1, वार्ड-31-सुन्दरनगर केम्प-1, वार्ड-33-संतोषीपारा केम्प-2, वार्ड-35-शारदापारा, गांधी चौक केम्प-2, वार्ड-36-श्यामनगर, वार्ड-37-रविदास नगर, वार्ड-39-चन्द्रशेखर आजाद नगर, वार्ड-40-छावनी, वार्ड-41 छावनी, वार्ड-42— खुर्सीपार जोन-1, गौतमनगर, वार्ड-43-बापूनगर, वार्ड-45-बालाजीनगर, वार्ड-46-दुर्गा मंदिर एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र, वार्ड-48-खुर्सीपार जोन-3, वार्ड-49-खुर्सीपार जोन-2 नेताजी सुभाष वार्ड, वार्ड-50-खुर्सीपार जोन-2 शास्त्रीनगर, वार्ड-51-शहीद वीर नारायण सिंह(जी.ई.रोड छोड़कर) एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र।

जोन-3 (व्यवसायिक)

जोन-3 के अंतर्गत आने वाले आवासीय क्षेत्र के अंदर भाग में कर रहे व्यवसाय पर जोन-3 के अंतर्गत व्यवसायिक दर से गणना की जावेगी।

जोन कमांक-4 औद्योगिक :-

नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत स्थित औद्योगिक रास्थान एवं अन्य समान भूमि मूल्य के क्षेत्र।

3- मोबाइल टावरों एवं भूमिगत केबल पर सम्पत्तिकर अवधारण के संबंध में—

भूमिगत केबल पर संबंधित जोन के अनुसार करो का निर्धारण कर शोध संपत्ति मूल्य की दर से सम्पत्तिकर का अधिरोपण किया जावेगा।

1. भूमिगत केबल पर सम्पत्तिकर का अवधारण— : भूमिगत केबल क्षेत्रफल पर एकता क्षेत्र के संबंधित सम्पत्तिकर व्यवसायिक जोन के भूमि के कर योग्य संपत्ति मूल्य की दर से सम्पत्तिकर का अवधारण किया जावेगा।

2. मोबाइल टावर पर सम्पत्तिकर का अवधारण— मोबाइल टावर पर प्रति टावर पचास हजार रुपयी का अवधारण निगम के सभी क्षेत्र में किया जावेगा। आवासीय ऐसे भवन जिन पर मोबाइल टावर स्थापित हैं उक्त आवासीय भवन के स्वामी को स्वयं के रहयास के अंतर्गत कर योग्य संपत्ति मूल्य में गिलने वाली सम्पत्तिकर पर 50 प्रतिशत छूट की पात्रता नहीं होगी।

7- अवधारित कर योग्य संपत्ति मूल्य पर वार्षिक सम्पत्तिकर की दरें निम्नानुसार हैं :-

क्र०	अवधारित कर योग्य संपत्ति मूल्य	वार्षिक सम्पत्तिकर की दरे (प्रतिशत में)
1.	कवेलू छत सहित कच्चे मकान जिनका क्षेत्रफल 500 वर्गफुट(46.46 वर्गमीटर) से अधिक न हो।	संपूर्ण छूट (नियमानुसार समेकित कर देय होगा)
2.	ऐसी सभी भूमि और भवन, जिन पर स्वामित्व या कब्जा शहरी गरीबों का हो तथा जिनका निर्माण शहरी गरीबों के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल या नगर पालिक निकाय की किसी गृह निर्माण योजना के अंतर्गत हुआ हो।	संपूर्ण छूट (नियमानुसार समेकित कर देय होगा)
3.	कर योग्य संपत्ति मूल्य 12000/- तक	6 प्रतिशत
4.	कर योग्य संपत्ति मूल्य 12001/- से 20000/- तक	8 प्रतिशत
5.	कर योग्य संपत्ति मूल्य 20001/- से 30000/- तक	10 प्रतिशत
6.	कर योग्य संपत्ति मूल्य 30001/- से 50000/- तक	12 प्रतिशत
7.	कर योग्य संपत्ति मूल्य 50001/- से 75000/- तक	15 प्रतिशत
8.	कर योग्य संपत्ति मूल्य 75001/- से 100000/- तक	18 प्रतिशत
9.	कर योग्य संपत्ति मूल्य 100001/- से अधिक	20 प्रतिशत

8- छूट - वर्तमान में अवधारित कर योग्य संपत्ति मूल्य पर छूट निम्नानुसार है:-

- बहुमंजिला भवनों के कर योग्य संपत्ति मूल्य की दर में छूट- यथावत ।
- भवनों के रख-रखाव के प्रयोजन से कुल कर योग्य संपत्ति मूल्य में 10 प्रतिशत की छूट यथावत ।
- भवन तथा भूमि, भू-स्वामी के निवास हेतु प्रयोग में लायी जा रही है तो कर योग्य सम्पत्ति मूल्य में पचास प्रतिशत की छूट। परन्तु यदि उक्त आवासीय भवन में मोबाइल टावर स्थापित हैं ऐसी दशा में भवन स्वामी को उक्त छूट की पात्रता नहीं रहेगी ।

		संपूर्ण छूट
4	भारत सरकार, राज्य सरकार या नगरपालिक निकायों की शैक्षणिक संस्थानों, पंजीकृत धर्मार्थ न्यास, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 12 की उप-धारा(1) के अंतर्गत पंजीकृत शैक्षणिक संस्थान।	
5	शैक्षणिक संस्थान जो उपरोक्त श्रेणी(4) के अधीन आच्छादित नहीं है।	निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का 35) के अनुपालन के अनुपात में, पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, ऐसे अनुपालन की सीमा तक, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना।
6	निःशक्त व्यक्ति(समान अवसर, अधिकार का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995(1996 का 1) के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों के स्वामित्व के अधीन भूमि और भवन	पचास प्रतिशत।
7	नेत्रहीन व्यक्तियों, तथा तलाकशुदा/ परित्यक्ता (निराश्रित) महिला के स्वामित्व वाली भूमि और भवन।	पचास प्रतिशत।

09- मिलाई इस्पात संयंत्र के स्वामित्व के भूमियों एवं भवनों का भी वर्ष 2025-26 के लिये निर्धारित दर अनुसार सम्पत्तिकर पुनर्निर्धारण किया जावेगा ।

10- नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 137 के अंतर्गत छूट- वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु सम्पत्तिकर निर्धारित अवधि के पूर्व राशि जमा करने वाले भवन/भूमि स्वामियों को निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी :-

1. 01 अप्रैल 2025 से 31 मई 2025 के भीतर देय सम्पत्तिकर जमा करने पर 6.25 प्रतिशत की छूट ।
2. 01 जून 2025 से 31 जुलाई 2025 के भीतर देय सम्पत्तिकर जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट ।
3. 01 अगस्त 2025 से 30 सितम्बर 2025 के भीतर देय सम्पत्तिकर जमा करने पर 4 प्रतिशत की छूट ।
4. 01 अक्टूबर 2025 से 30 नवम्बर 2025 के भीतर देय सम्पत्तिकर जमा करने पर 2 प्रतिशत की छूट ।


11- अधिभार -छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138(2) की उपधारा (1) के अधीन निगम द्वारा अंगीकृत किये गये संकल्प के आधार पर भूमि या भवन का प्रत्येक स्वामी, अपनी भूमि या भवन का कर योग्य संपत्ति मूल्य निर्धारित करेगा तथा इस निमित्त विहित प्रारूप में एक विवरणी के साथ संपत्तिकर की रकम, निगम द्वारा नियत की गई तारीख को या उसके पूर्व जमा करेगा जिसमें असफल रहने पर, ऐसी दर से अधिभार जैसा कि निगम द्वारा अवधारित किया जाये, प्रभारित किया जाएगा। भवन स्वामी को वित्त वर्ष 2025-26 में बिना अधिभार के स्व-विवरणी प्रस्तुत करने एवं देय राशि जमा करने की अंतिम अवधि 31 मार्च 2026 तक निर्धारित है। वित्त वर्ष 2025-2026 के बाद अर्थात् 31 मार्च 2026 के पश्चात कुल देय राशि पर 18 प्रतिशत की दर से अधिभार के अतिरिक्त (1). नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की उपधारा (2-क) के अंतर्गत – यदि ऐसा व्यक्ति जिसका दायित्व था कि वह 31 मार्च के पूर्व स्वनिर्धारण पत्रक प्रस्तुत करे, के द्वारा यह पत्रक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उस पर चूक हेतु एक हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की जाएगी ।

(2). नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की उपधारा (2) के अंतर्गत किये गये निर्धारण में निम्न स्तर पर दस प्रतिशत तक का अंतर आता है, परन्तु कर देय होने की तिथि तथा अंतर की राशि जमा करने की तिथि के बीच (अंतर) के प्रत्येक माह के लिए दो प्रतिशत की दर से अधिभार के साथ निर्धारित निर्धारण आदेश के दो सप्ताह के भीतर कमी की राशि जमा करें, तो शास्ति के प्रयोजन पर ध्यान नहीं दिया जाएंगा, तथा ऐसे मामलों में जहाँ अंतर दस प्रतिशत से अधिक हो, तो भूमि और/या भवन का स्वामी, यथास्थिति, कर देय होने की तिथि तथा अंतर की राशि जमा करने की तिथि के बीच(अंतर) के प्रत्येक माह के लिए दो प्रतिशत की दर से अधिभार के अतिरिक्त उसके द्वारा किये गये स्व-निर्धारण तथा निगम के द्वारा किये गये निर्धारण के अंतर के पांच गुने के बराबर शास्ति भुगतान करने का दायी होगा ।

(3). नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की (4) उपधारा (3) के अधीन पारित किये गये आदेश के विरुद्ध अपील मेयर-इन-काउसिल में होगी :

परन्तु इस उपधारा के अंतर्गत कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि उसके साथ उपधारा (3) के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार मांगी गई राशि के सविरोध भुगतान करने का प्रमाण संलग्न नहीं किया गया हो ।

उपरोक्तानुसार अधिसूचना 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में स्थित समस्त भवन/भूमि स्वामी/दखलकार पर प्रभावशील होगी ।



आयुक्त
नगर-पालिक निगम
भिलाई